

AU-2369

M.A. Part-I (Semester-II) Examination
ECONOMICS (Group—A)
(Macro Economics—II)
Paper—II

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 80

Note :— (1) Attempt all **FIVE** questions.

(2) All questions carry equal marks.

1. (a) Explain IS curve.
(b) Explain in short Monetary Policy.
(c) State the factors determining the supply of loanable funds.
(d) Explain the concept of interest rates and price expectations.

OR

- (e) Explain the concept of fiscal policy.
(f) Briefly explain the classical theory of interest.
(g) Distinguish between nominal and real interest rates.
(h) State the factors that determine the demand of loanable funds.
2. Explain the demand-pull inflation and cost-push inflation in detail.

OR

What is inflation ? Explain the effects of inflation in detail.

- 3 (a) Explain Philips curve analysis.
(b) Explain Tobin's modified Philip's curve.
(c) What is Deflation ?
(d) Briefly explain Friedman's expectation model.

OR

- (e) State measures to Control Deflation.
 - (f) State Friedman's Policy to control inflation.
 - (g) Explain Philip's curve analysis in long run.
 - (h) What is meant by Deflationary Gap ?
4. Explain Patinkin's Monetary Model in detail.

OR

Critically examine the Mundel-Fleming's open economy model.

5. (a) What are the constituents of money market ?
- (b) Explain institutions of capital market.
- (c) Explain the super multiplier in the context of trade cycle.
- (d) Explain the acceleration principle in the context of trade cycle.

OR

- (e) Explain the limitations of Hawtrey's monetary theory of trade cycle.
- (f) Briefly explain Hayek's over-investment theory of trade cycle.
- (g) Briefly explain Kaldor's model of trade cycle.
- (h) Distinguish between Money market and Capital market.

AU-2369

M.A. Part-I (Semester-II) Examination
ECONOMICS (Group—A)
(Macro Economics—II)
Paper—II

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 80

(मराठी माध्यम)

सूचना :—(1) सर्व पाचही प्रश्न सोडवा.

(2) सर्व प्रश्नांना समान गुण आहेत.

1. (अ) IS वक्र स्पष्ट करा.
(ब) नौद्विक धोरण थोडक्यात स्पष्ट करा.
(क) ऋणयोग्य निधीचा पुरवठा निर्धारित करणारे घटक सांगा.
(ड) व्याज दर आणि किंमत अपेक्षा ही संकल्पना स्पष्ट करा.

किंवा

- (इ) राजकोषीय धोरणाची संकल्पना स्पष्ट करा.
(फ) परंपरागत व्याजाचा सिद्धांत थोडक्यात स्पष्ट करा.
(ग) नाममात्र आणि वास्तविक व्याजदरातील अंतर स्पष्ट करा.
(ह) ऋणयोग्य निधीचा मागणी निर्धारित करणारे घटक सांगा.
2. मागणीकर्षकस्फीती आणि व्ययवृद्धीस्फीती सविस्तर स्पष्ट करा.

किंवा

- स्फीती म्हणजे काय ? स्फीतीचे परिणाम सविस्तरपणे स्पष्ट करा.
3. (अ) फिलिप्स वक्र विश्लेषण स्पष्ट करा.
(ब) टोबिनचा सुधारित फिलिप्स वक्र स्पष्ट करा.
(क) अपस्फीती (Deflation) म्हणजे काय ?
(ड) फ्राईडमन चे अपेक्षा प्रारूप थोडक्यात स्पष्ट करा.

किंवा

- (इ) असमर्थीकरण (Deflation) नियंत्रणाची साधने सांग.
 - (फ) वनीती नियंत्रणासाठी आर्थिकमंत्रालयाचे धोरण सांग.
 - (ग) दिव्यकालीन फिलिया वक्र विश्लेषण स्पष्ट करा.
 - (ह) अपसमर्थित अंतर (Deflationary Gap) म्हणजे काय ?
4. पेंडीनकिनचे नैदानिक प्राकट्य विन्यासाने स्पष्ट करा.

किंवा

- गुडेल फ्लेमिंगच्या खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या प्राकटाचे टिकात्मक परीक्षण करा
5. (अ) मुद्रा बाजाराचे चढक कोणते आहेत ?
- (ब) भांडवल बाजाराच्या संस्था स्पष्ट करा
- (क) व्यापारचक्राच्या संदर्भात महत्त्वपूर्ण स्पष्ट करा.
- (ड) व्यापारचक्राचे संदर्भात त्वरक तत्त्व स्पष्ट करा

किंवा

- (इ) हॉटेल याच्या व्यापार चक्राच्या नैदानिक सिद्धांताच्या मर्यादा स्पष्ट करा
- (फ) हॉटेल याच्या व्यापारचक्राच्या अतिगुंतवणूक विद्वत्त थोडक्यात स्पष्ट करा
- (ग) कालडोरेचे व्यापारचक्राचे प्राकट्य थोडक्यात स्पष्ट करा
- (ह) मुद्रा बाजार आणि भांडवल बाजारातील भेद स्पष्ट करा

M.A. Part-I (Semester-II) Examination
ECONOMICS (Group—A)
(Macro Economics—II)
Paper—II

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 80

(हिन्दी माध्यम)

सूचना :—(1) सभी पांच प्रश्न हल कीजिये।

(2) सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

1. (अ) IS वक्र को स्पष्ट कीजिये।

(ब) मौद्रिक नीति को संक्षेप में स्पष्ट कीजिये।

(क) उधार देय कोष (Loanable funds) की पूर्ति को निर्धारित करनेवाले कारक बताइये।

(ड) ब्याज दर एवं कीमत अपेक्षाएं यह संकल्पना स्पष्ट कीजिये।

अथवा

(इ) राजकोषीय नीति की अवधारणा स्पष्ट कीजिये।

(फ) ब्याज का परंपरावादी सिद्धांत संक्षेप में स्पष्ट कीजिये।

(ग) नाममात्र एवं वास्तविक ब्याज दर में अंतर बताइये।

(ह) उधार देय कोष की मांग को निर्धारित करनेवाले कारक बताइये।

2. मांग कर्षक स्फीति तथा वध्य वृद्धि स्फीति विस्तार से स्पष्ट कीजिये।

अथवा

स्फीति का आशय क्या है ? स्फीति के प्रभाव को विस्तार से स्पष्ट कीजिये।

3. (अ) फिलिप्स वक्र विश्लेषण स्पष्ट कीजिये।

(ब) टोबिन द्वारा सुधारित फिलिप्स वक्र स्पष्ट कीजिये।

(क) अपस्फीति (Deflation) का आशय क्या है ?

(ड) फ्राईडमैन का अपेक्षा प्रारूप संक्षेप में स्पष्ट कीजिये।

अथवा

- (इ) अपसर्पण (Deflation) निर्धारण के समय बताइये।
 - (फ) स्थिति निर्धारण के लिये फ्राईडमन की नीति बताइये।
 - (ग) रीचकालीन थ्रिलिंग चक्र विग्रहण को स्पष्ट कीजिये।
 - (ह) अपसर्पणिक अंतर (Deflationary Gap) क्या होता है ?
4. पेंटीनकिन का नैदरिक प्राकृत विस्तार से स्पष्ट कीजिये।

अथवा

- मुंडेल फ्लेमिंग की दृष्टि अर्थव्यवस्था प्रश्न का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये।
5. (अ) मुद्रा बाजार (Money Market) के जरूरी कौनसे हैं ?
- (ब) मुद्रा बाजार की संस्थाओं को स्पष्ट कीजिये।
- (क) महागुणक (Super Multiplier) को व्यापार चक्र के संदर्भ में स्पष्ट कीजिये।
- (इ) व्यापार चक्र के संदर्भ में प्रवेग तत्व (Acceleration Principle) स्पष्ट कीजिये।

अथवा

- (इ) व्यापार चक्र का हॉट्टे के नैदरिक सिद्धांत की मदद से स्पष्ट कीजिये।
- (फ) इंगेल के व्यापार चक्र के अति विवेक सिद्धांत को संक्षेप में स्पष्ट कीजिये।
- (ग) कॉलडोर का व्यापार चक्र का प्राकृत संक्षेप में स्पष्ट कीजिये।
- (ह) मुद्रा बाजार (Money Market) एवं पूँजी बाजार (Capital Market) में अंतर बताइये।